



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 1981/फाल्गुन 5, 1902

No. 82]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 1981/PHALGUNA 5, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1981

का० आ० 129 (अ) :- केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सीमेंट का, जो एक आवश्यक वस्तु है, अनुश्रवण करने और उसकी पूर्ति बढ़ाने और उसका समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ — (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सीमेंट नियंत्रण (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1981 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
- (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. कतिपय किस्मों के सीमेंट के उत्पादन की बाधन प्रतिपेक्षा — कोई भी व्यक्ति, विषय के लिए नीचे विनिर्दिष्ट किस्मों में किसी भिन्न किस्म

के सीमेंट का उत्पादन नहीं करेगा :-

सीमेंट की किस्म	भा० मा० सं० विनियमन संख्या
साधारण और निम्नतम पोर्टलैंड सीमेंट	269--1976 (तीसरा संशोधन)
पोर्टलैंड धातुमय सीमेंट	465--1976 (तीसरा संशोधन)
पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट	1489--1976 (दूसरा संशोधन)
इस्पात सीमेंट जलमय मिश्रण	2642--1975 (पहला संशोधन)
चिनाई सीमेंट	3466--1967 (पहला संशोधन)
संरचनात्मक प्रयोग के लिए उच्च ऐलुमिना सीमेंट	6452--1972
सुपर सल्फेट सीमेंट	6909--1973
शीघ्र मजबूती देने वाली पोर्टलैंड सीमेंट	8041--1978
सफेद पोर्टलैंड सीमेंट और सफेद पोर्टलैंड सीमेंट से बनाया गया रंगीन सीमेंट	8042--1978
उच्च शक्ति वाला सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट	8112--1976
ग्रायण-लेन सीमेंट	8229--1976

परन्तु केन्द्रिय सरकार, रक्षा, रेल, शक्ति एतत्काय किंवा अन्य उद्योग को विशेष आवश्यकताओं पर विचार करने हुए, किन्ती अन्य किम्ब के सीमेंट के उत्पादन और वित्त के लिए अनुज्ञा दे सकना है।

[फा० सं० 1-52/80-सीमेंट]

मनीश बहल, सयुक्त सचिव

### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

#### ORDER

New Delhi, the 24th February, 1981

**S.O. 129(E).**—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do for maintaining and increasing supplies and for securing the equitable distribution of cement, an essential commodity ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This order may be called Cement Control (Regulation of Production) Order, 1981.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force at once.

2. Prohibition regarding production of certain varieties of cement:—No person shall produce any variety of cement for

sale, other than the varieties specified below :—

Variety of cement	ISI Specification No.
Ordinary and low heat portland cement	269—1976 (third revision)
Portland slag cement	455—1976 (third revision)
Portland pozzolana cement	1489—1976 ( <del>third</del> revision)
Integral cement waterproofing compound	<del>2005</del> —1975 (first revision)
Masonry cement	3466—1967 (first revision)
High alumina cement for structural use.	6452—1972
Supersulphated cement.	6909—1973
Rapid hardening portland cement	8041—1978
White portland cement and coloured cement made out of white portland cement.	8042—1978
High strength ordinary portland cement.	8112—1976
Oil well cement.	8229E—1976

Provided that the Central Government may permit the production and sale of any other variety of cement taking into consideration the special needs of Defence, Railways, Power units, or any other industry.

[File No. 1-52/80-Cem.]  
MANISH BAHL, Jt. Secy.